



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 623 राँची, मंगलवार

26 जून, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

21 जून, 2018

विषय :- चक्रधरपुर नगर परिषद अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि 11352.75 लाख (एक सौ तेरह करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार) रुपए एवं स्वच्छ भारत मिशन के केन्द्रांश से राशि 559.16 लाख (पांच करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार) रुपए तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि 5781.01 लाख (संतावन करोड़ इक्कासी लाख एक हजार) रुपए अर्थात् कुल राशि 6340.17 लाख (तिरसठ करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार) रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति ।

संख्या-SUDA/SBM/SWM/36-2015-3260-- 74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी SWM Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
4. TSP प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर नगर परिषद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें Door to Door Collection, Transportation, Segregation, Waste Processing तथा Scientific Landfilling का प्रस्ताव है। इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा। प्रथम चरण की निविदा EPC Mode पर एवं दूसरे चरण की निविदा को लोक-निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है। योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX, OPEX एवं अन्य मद पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका-1 में दर्ज है।
5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
6. निकाय के पास 10 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है।
7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात् राशि 336.80 रुपए लाख का व्यय किया जायेगा।
8. केन्द्रांश से कुल राशि 559.16 लाख रुपए SBM योजना के तहत Mission Period, 2 अक्टूबर, 2019 तक @ 35% CAPEX, @ 20% OPEX एवं @ रु. 12 प्रति व्यक्ति के अनुसार DPR बनाने हेतु दिया जाना है।
9. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किया जाएगा।
10. SBM के राज्य योजना मद से कुल राशि 5781.01 लाख रुपए दिया जाएगा।
11. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन मद से किया जायेगा।

तालिका-1

CHAKRADHARPUR SOLID WASTE MANAGEMENT - FUND FLOW		
S. No.	Particular	Amount in Rs. Lakh
PROJECT EXPENDITURE		
1	Total Project Cost (1.1+1.2+1.3)	11352.75
1.1	Capital Cost (CAPEX)	1122.68
1.2	O & M Cost for 20 Years	10084.12
1.3	Other Expenses (1.3.1+1.3.2+1.3.3)	145.95
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	16.84
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	16.84
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	112.27
PROJECT RECEIPTS		
2	Total Receipts (2+3+4+5)	11352.75
2.0	Income (2.1+2.2+2.3+2.4)	4675.78
2.1	By User Charges in O&M	2785.89
2.2	By Sale of Compost in O&M	1279.49
2.3	By Sale of Recyclable in O&M	584.68
2.4	By Sale of Scrap in O&M	25.72
3	Central Share (3.1+3.2+3.3)	559.16
3.1	Central Share for DPR preparation @ Rs. 12 per capita	7.31
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	392.94
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (3	158.91
4	Investment of PPP Operator	336.80
	Investment by Private Partner in CAPEX @ 30% (PPP	336.80
5	Total Grant Required from State (5.1+5.2+5.3)	5781.01
5.1	In CAPEX	392.94
5.2	In O&M in 20 years	5249.43
5.3	In Other	138.64

तालिका-II

S. No.	Particular	Amount in Rs. Lakh
1.0	Total Project Cost	11352.75
2.0	Income from Project	4675.78
3.0	Fund from PP Partner	336.80
4.0	Central Government Share	559.16
5.0	Total State Government Share	5781.01

12. योजना की निविदा प्रक्रिया दो अलग-अलग चरणों में पूर्ण की जाएगी:
- (क) प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and Transportation हेतु संयंत्र एवं वाहनों का क्रय Items Rate Basis पर किया जायेगा, जिस पर कुल व्यय राशि 213.74 लाख रुपए होगी ।
- (ख) दूसरी निविदा PPP Mode पर आमंत्रित किया जाएगा जिसके तहत Processing Plant तथा Landfill Site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा। निविदा में Capital Cost, item rate basis पर तथा O&M cost, Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा ।
13. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में चक्रधरपुर नगर परिषद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि **11352.75 लाख** (एक सौ तेरह करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार) रुपए एवं SBM के केंद्र मद से राशि **559.16 लाख** (पांच करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार) रुपए तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि **5781.01 लाख** (संतावन करोड़ इक्कासी लाख एक हजार) रुपए अर्थात् कुल राशि **6340.17 लाख** (तिरसठ करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार) रुपए का अनुदान देने एवं कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है ।
14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक: 12 जून, 2018 के मद संख्या: 06 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।
